



668_AARAMBHIKAA_L19

19

रामेश्वरम

Rameshwaram

Rameshwaram

पिछले पाठ में सैम और माया, गीता के साथ सारनाथ का भ्रमण कर चुके हैं और सारनाथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस पाठ में वे रामेश्वरम का भ्रमण करेंगे।

Pichhle paath men, Sam aur Maya, Geeta ke saath Saarnaath kaa bhraman kar chuke hain aur Saarnaath ke baare men jaanakaaree praapt kar chuke hain. Is paath men ve Rameshvaram kaa bhraman karenge.

In the previous lesson, Sam and Maya along with Geeta, visited Sarnath and got information about Sarnath. In this lesson, they will visit Rameshwaram.



उद्देश्य / Uddeshya / Objectives

इस पाठ से हम सीखेंगे : / *Is paath se hum seekhenge* : / In this lesson we will learn:

हिन्दी –देवनागरी में Hindi in Devnagri	हिन्दी –रोमन लिपि में Hindi in Roman Script	अंग्रेज़ी अनुवाद English Translation
दक्षिण की यात्रा पर अपने विचार साझा करना;	<i>Dakshin kee yaatraa par aapne vichaar saajhaa karnaa;</i>	To share views on the journey to the southern part of India.
दैनिक जीवन में व्यवहार में आने वाली हिंदी शब्दावली (जैसे दिन के विभिन्न समय, वाहनों के नाम और गिनती) का अभ्यास करना;	<i>Dainik jeevan men vyavhaar men aane wali Hindi shabdaawalee (jaise din ke vibhinn samay, vaihanon ke naam aur ginatee) kaa abhyaas karnaa;</i>	To practice Hindi vocabulary (such as different time of the day, names of vehicles and counting) used in day to day life;
पाठ में आए शब्दों को नए संदर्भों में प्रयोग करना।	<i>Paath men aaye shabdon ko naye sandarbhon men prayog karnaa.</i>	To use the words of the lesson in new contexts.



आइए पढ़ें / Aaiye padhein / Let's read - 19.1

मदुरई रेलवे स्टेशन का प्रतीक्षा कक्ष :

Madurai railway station kaa pratikshaa kaksh :

Waiting room of Madurai railway station :

हिन्दी –देवनागरी में Hindi in Devnagri	हिन्दी –रोमन लिपि में Hindi in Roman Script	अंग्रेजी अनुवाद English Translation
सैम : मुझे तो टैक्सी चालक से बात करते हुए बहुत अच्छा लगा।	<i>Sam : Mujhe to taxi chalak se baat karte hue bahut achchaa lagaa.</i>	Sam : I really enjoyed talking to the taxi driver.
माया : हाँ, और उन्होंने हमें रामेश्वरम के बारे में कितनी सारी जानकारी भी दी।	<i>Maya: Haan, aur unhone hamen Rameshwaram ke baare men kitnee saaree jaankaaree bhee dee.</i>	Maya : Yes, and he also told us a lot information about Rameshwaram.
सैम : रामेश्वरम के बारे में इतना सब जानकर मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है।	<i>Sam : Rameshwaram ke baare men itnaa sab jaankar mujhse to ab intezaar hee naheen ho rahaa hai.</i>	Sam : Hearing so much about Rameswaram, I can't wait now.
माया : गीता, हमें रामेश्वरम पहुँचने में और कितना समय लगेगा?	<i>Maya : Geeta, hamen Rameshwaram pahunchne men aur kitnaa samay lagegaa?</i>	Maya : Geeta, how much more time will it take to reach Rameswaram?
गीता : हमारी ट्रेन शाम 4:00 बजे की है। रात 8:00 बजे तक हम रामेश्वरम में होंगे।	<i>Geeta : Hamaari train sham 4:00 baje kee hai. Raat 8:00 baje tak hum Rameshwaram men honge.</i>	Geeta : Our train is at 4:00 PM and by 8:00 PM we will be at Rameswaram.
सैम : मतलब आज का पूरा दिन सफर में ही बीतने वाला है।	<i>Sam : Matlab aaj kaa poora din safar men hee beetne waalaa hai.</i>	Sam : It means we will be spending whole day in travelling.
माया : हाँ, पहले टैक्सी फिर हवाई जहाज, और अब रेल।	<i>Maya : Haan, pahle taxi, fir hawaai jahaaj, aur ab rail.</i>	Maya : Yes, first taxi, then flight and now train.
सैम : ट्रेन से उतरने के बाद होटल तक के लिए ऑटो भी तो लेंगे।	<i>Sam : Train se utarne ke baad hotel tak ke liye auto bhee to lenge.</i>	Sam : After deboarding from the train, we will have to take an auto for hotel.

हिन्दी –देवनागरी में Hindi in Devnagri	हिन्दी –रोमन लिपि में Hindi in Roman Script	अंग्रेजी अनुवाद English Translation
माया : फिर तो, बस का ही सफर रह जाएगा । (हँसते हुए)	<i>Maya : Fir to, bus kaa hee safar rah jayegaa. (Hanste Huye)</i>	Maya : Then, only the bus journey will remain. (laughs)
गीता : वह भी कर लेंगे, अभी तो रामेश्वरम की यात्रा शुरू ही हुई है ।	<i>Geeta : Vah bhee kar lenge, abhee to Rameshwaram kee yaatraa shuroo hee huee hai.</i>	Geeta : We will do it too, the journey to Rameshwaram has just begun.
माया : गीता, सैम तो रामेश्वरम से ज्यादा ट्रेन की यात्रा को लेकर उत्साहित है ।	<i>Maya : Geeta, Sam to Rameshwaram se jyaadaa train kee yaatraa ko lekar utsaahit hai.</i>	Maya : Geeta, Sam is more excited for the train journey than Rameswaram.
सैम : हाँ, आखिर ट्रेन पंबन पुल से होकर जो जाने वाली है। मैंने पढ़ा है कि ये भारत का सबसे पुराना समुद्री पुल है।	<i>Sam : Haan, aakhir train pamban pul se hokar jo jaane waalee hai. Maine padhaa hai kee ye Bharat kaa sabse purana samudree pul hai.</i>	Sam : Yes, after all the train is going to pass through the Pamban bridge. I have read that it is the oldest sea bridge in India.



Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pamban_Bridge_Train_Passing.jpg

गीता: सौ साल से भी अधिक पुराना है पंबन पुल।	<i>Geeta: Sau saal se bhee adhik purana hai Pamban pul.</i>	Geeta: Pamban bridge is more than a hundred years old
---	---	--

माया : हाँ, सैम ने मुझे बताया। अब तो बस ट्रेन आने का इंतजार है।	<i>Maya : Haan, Sam ne mujhe bataayaa. Ab to bas train aane kaa intazaar hai.</i>	Maya : Yes, Sam has told me. Now, just waiting for the train to arrive.
---	---	--

यह भी जानें ! / *Yah bhee jaanen !* / **There's more to know:**

1. हिंदी में दिन के हिस्सों को – सुबह, दोपहर, शाम और रात कहते हैं ।

Hindi men din ke hisson ko - subah, dopahar shaam aur raat kahte hain.

Parts of the Day are known as - subah, dopahar, sham aur raat.



अपनी प्रगति जाँचें / Apnee Pragati jaanchen / Check your progress- 19.1

1. सही शब्द का प्रयोग करके खाली स्थान भरें।

Sahee shabd ka prayog karke khaalee sathaan bharen.

Fill in the blanks with the correct word.

(सुबह, दोपहर, शाम, रात)

- (क) चांद में दिखाई देता है।
 (ख) जल्दी उठना अच्छी आदत है।
 (ग) सूर्यास्त के समय को कहते हैं।
 (घ) में सूरज तेज चमकता है।
2. भारत का सबसे पुराना समुद्री पुल कौन सा है ?
- (क) हावड़ा पुल (ख) पंबन पुल
 (ग) भीम पुल (घ) राम झूला



आइए पढ़ें / *Aaiye padhen* / Let's read - 19.2

रामेश्वरम में होटल का कमरा

Rameshwaram men hotel kaa kamaraa.

Hotel room at Rameshwaram

हिन्दी –देवनागरी में Hindi in Devnagri	हिन्दी –रोमन लिपि में Hindi in Roman Script	अंग्रेजी अनुवाद English Translation
सैम : गीता, यह जगह तो बहुत अच्छी है।	<i>Sam : Geeta, yah jagah to bahut achchee hai.</i>	Sam : Geeta, this place is very nice.
माया : हाँ, बहुत किफायती भी।	<i>Maya : Haan, bahut kifaayatee bhee.</i>	Maya : Yes, and very economical too.
सैम : चलो जल्दी से तैयार हो जाएँ। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाना है।	<i>Sam : Chalo, jaldi se taiyaar ho jaayen Rameshwar Jyotirling ke darshan ke liye jaanaa hai.</i>	Sam : Let's get ready quickly. We have to go for darshan of Rameshwaram Jyotirlinga.
माया : हाँ मैंने पढ़ा था, कि सुबह जल्दी मंदिर पहुंचने पर दर्शन जल्दी होते हैं।	<i>Maya : Haan, maine padhaa thaa, ki subah jaldee mandir pahunchne per darshan jaldee hote Hain.</i>	Maya : Yes, I had read that if we reach temple early in the morning, darshan is easily possible.
सैम : वाह माया, तुमने तो मंदिर के बारे में सारी जानकारी ले ली है।	<i>Sam : Vaah Maya, tumne to Mandir ke baare men saaree jaankaaree le lee hain.</i>	Sam : Wow Maya, you have got all the information about the temple.

हिन्दी –देवनागरी में Hindi in Devnagri	हिन्दी –रोमन लिपि में Hindi in Roman Script	अँग्रेजी अनुवाद English Translation
माया : हाँ, और रामेश्वरम में आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, मैंने उसकी योजना भी बना ली है।	<i>Maya : Haan, aur Rameshwaram men aaj ham kahan-kahan jaane wale hain, maine uskee yojanaa bhee banaa lee hai.</i>	Maya : Yes, and I have also made a plan of where we are going today in Rameshwaram.
गीता : माया, तुम तो बहुत समझदार हो ।	<i>Geeta : Maya, Tum to bahut samajhdaar ho !</i>	Geeta : Maya, you are very intelligent.
सैम : दिल्ली में कितनी ज्यादा ठंड थी, यहाँ ठंड नहीं है।	<i>Sam : Dilli men kitnee jyaadaa thand thee, yahaan thand naheen hai.</i>	Sam : It was cold in Delhi, but it is pleasant here.
गीता : भारत की यही तो खूबी है। यहाँ हर जगह की अपनी अलग भौगोलिक विशेषता, भाषा, खान- पान और सांस्कृतिक पहचान है।	<i>Geeta : Bharat kee yahee to khoobi hai. Yahaan har jagah kee apnee alag bhaugolik visheshtaa, bhashaa khanpaan aur saanskritik pahchan hai.</i>	Geeta : This is the beauty of India. Here every place has its own distinct geographical feature, language, food and cultural identity.
माया : बिल्कुल सही।	<i>Maya : Bilkul sahee.</i>	Maya : Absolutely right.

यह भी जानें ! / *Yah bhee jaanen* ! / **There's more to know:**

- दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर घूमने की विस्तृत योजना बनाएँ और अपने दोस्तों के साथ साझा करें ।

Dakshin bharat ke Meenakshi Mandir ghumne kee vistrit yojnaa banaayein aur apne doston ke saath saanjhaa karen.

Make a detailed plan to visit Meenakshi Temple in South India and share it with your friends.



अपनी प्रगति जाँचें / *Apnee Pragati jaanchen* / **Check your progress- 19.2**

- नीचे दिए वाक्य पढ़ें और सही या गलत का निशान लगाएं :

Neeche diye vaakya padhein aur sahee yaa galat ka nishan lagaaen:

Read the sentences given below and mark them right or wrong:

- | | |
|--|-----|
| (क) सैम को रामेश्वरम बहुत अच्छा लगा । | () |
| (ख) गीता ने माया को बताया कि सुबह जल्दी मंदिर जाने पर दर्शन जल्दी होते हैं । | () |
| (ग) भारत में सब जगह एक—सा मौसम रहता है । | () |
| (घ) माया ने मंदिर के बारे में सारी जानकारी ले ली थी । | () |
| (ङ) माया, गीता और सैम रेल से रामेश्वरम पहुंचे थे । | () |
| (च) रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग बहुत प्रसिद्ध है । | () |
| (छ) भारत की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ हर जगह की अपनी पहचान है । | () |



आइए पढ़ें / *Aaiye padhen* / Let's read - 19.3

स्थान : दिल्ली वापसी के समय हवाई अड्डे पर / *Sthaan : Dilli waapasee ke samay hawaaee adde per* / Place : At the airport while returning to Delhi

हिन्दी —देवनागरी में Hindi in Devnagari	हिन्दी —रोमन लिपि में Hindi in Roman Script	अंग्रेजी अनुवाद English Translation
गीता : ये दिन कितनी जल्दी बीत गए, पता ही नहीं चला ।	<i>Geeta : Ye din kitnee jaldee beet gaye, pataa hee naheen chala.</i>	Geeta : How quickly these days have passed.
माया : मेरा तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है ।	<i>Maya : Meraa to waapas jaane ka man hee naheen kar rahaa hai.</i>	Maya : I don't feel like going back.
सैम : हाँ, तुम्हें यहाँ का डोसा— साँभर पसंद जो आ गया है ।	<i>Sam : Haan, tumhen yahaan kaa dosa-sambhar pasand jo aa gayaa hai.</i>	Sam : Yes, you have liked dosa-sambar of this place.
माया : और तुम्हें फिल्टर कॉफी और नारियल की चटनी ।	<i>Maya : Aur tumhen filter coffee aur naariyal kee chatnee.</i>	Maya : And you loved filter coffee and coconut chutney.
सैम : नारियल की चटनी होती ही इतनी स्वादिष्ट है । गीता! मुझे ये बनाना सिखा दोगी?	<i>Sam : Naariyal kee chatnee hotee hee itnee swaadisht hai. Geeta! mujhe ye banaanaa sikhaa dogee?</i>	Sam : Coconut chutney is so delicious. Geeta! will you teach me to prepare these dishes?



हिन्दी –देवनागरी में Hindi in Devnagri	हिन्दी –रोमन लिपि में Hindi in Roman Script	अंग्रेजी अनुवाद English Translation
गीता : हाँ, क्यों नहीं, लेकिन ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन और कहीं नहीं मिलेंगे।	<i>Geeta : Haan kyon naheen, lekin aise swaadist vyanjan aur kaheen nahee milenge.</i>	Geeta : Why not, but you will not get such delicious dishes anywhere else.
माया : और न ही धनुषकोडी। जैसा समुद्र का किनारा।	<i>Maya : Aur na hi Dhanushkodee jaisa samudra kaa kinaaraa.</i>	Maya : Nor you will find the beach like Dhanushkodi.
सैम : यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। एकदम अनोखी जगह है धनुषकोड़ी।	<i>Sam: Yah baat to tumne bilkul sahee kahee Ekadam anokhee jagah hai Dhanushkodee.</i>	Sam: You are absolutely right. Dhanushkodi is a very unique place.
माया : एक तरफ एकदम शांत और गंभीर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर विशाल हिंद महासागर।	<i>Maya: Ek taraf ekadam shant aur gambhir Bangal ki khadi aur doosri or vishaal Hind Mahaasaagar.</i>	Maya: Quiet and profound Bay of Bengal on one side and vast Indian Ocean on the other.
गीता : हाँ, कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य था! मुझे तो जिंदगी भर याद रहेगा।	<i>Geeta: Haan, kitnaa sundar praakritik drishya thaa! Mujhe to jindagee bhar yaad rahega.</i>	Geeta: Yes, what a beautiful scene it was! I will remember it for the rest of my life.
सैम : याद तो मुझे वे पानी में तैरने वाले पत्थर भी रहेंगे।	<i>Sam: Yaad to mujhe ve paanee men tairne waale patthar bhee rahenge.</i>	Sam: I will not forget those stones floating in the water.
माया : और रामेश्वरम मंदिर भी।	<i>Maya: Aur Rameshwaram mandir bhee.</i>	Maya: And Rameshwaram temple too.

हिन्दी –देवनागरी में Hindi in Devnagri	हिन्दी –रोमन लिपि में Hindi in Roman Script	अंग्रेजी अनुवाद English Translation
सैम : हाँ, वह कैसे भूल सकते हैं। मंदिर का गलियारा कितना सुंदर था न? वहाँ की शिल्पकला और चित्रकारी ने तो मेरा मन ही मोह लिया ।	<i>Sam: Haan, vah kaise bhoor sakte hain. Mandir kaa galiyaaraa bahut sundar thaa? Vahaan kee shilpkalaa aur chitrakaaree ne to meraa man hee moh liyaa.</i>	Sam: Yes, how can we forget that. The corridor of the temple was very beautiful. Its craftsmanship and painting fascinated me.



Source https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ramanathaswamy_temple_corridor.JPG

गीता : और यह दुनिया का सबसे लंबा गलियारा भी है ।	<i>Geeta : aur yah duniyaa kaa sabse lamba galiyaaraa bhee hai.</i>	Geeta : And it is the longest corridor in the world also.
सैम : हाँ और उतनी ही लंबी थीं लोगों की कतारें ।	<i>Sam : Haan aur utani hee lambi thee logon kee kataaren.</i>	Sam : Yes and the queues of people were equally long.

हिन्दी –देवनागरी में Hindi in Devnagri	हिन्दी –रोमन लिपि में Hindi in Roman Script	अंग्रेजी अनुवाद English Translation
माया : मैं तो देखकर ही दंग रह गई । सब कितने उत्साह और श्रद्धा के साथ खड़े थे ।	<i>Maya : Main to dekh kar hee dang rah gayee. Sab kitne utsaah aur shraddhaa ke saath khade the.</i>	Maya : I was stunned see them. Everyone stood with so much enthusiasm and reverence
सैम : यह यात्रा बहुत अच्छी रही । सुंदर जगहे, स्वादिष्ट भोजन, मिलनसार लोग ।	<i>Sam : Yah yaatraa bahut achchee rahee. sundar jagahen, swaadist bhojan, milansaar log.</i>	Sam : This trip was very good. Beautiful place, delicious food, friendly people.
माया : यह बात तो बिल्कुल सही कही तुमने ।	<i>Maya : Yah baat to bilkul sahee kahee hai tumne.</i>	Maya : You are absolutely right.

यह भी जानें ! / *Yah bhee jaanen !* / **There's more to know:**

1. डोसा, साँभर, वडा, नारियल की चटनी, इडली, रसम आदि दक्षिण भारतीय व्यंजनों के नाम हैं ।

Dosaa, Saambhar, Vadaa, Naariyal kee chatnee, Idlee Rasam aadi dakshin Bhaarteeya vyanjano ke naam hain.

Dosa, Sambar, Vada, Coconut Chutney, Idli, Rasam are the names of South Indian dishes.

2. हवाई जहाज, रेल, बस, ऑटो, टैक्सी आदि वाहनों के नाम हैं ।

Hawai jahaj, Rail, Bus, Auto, Taxi aadi vahanon ke naam hain.

Aeroplance, train, buse, auto, taxi, etc. are the names of vehicles.



अपनी प्रगति जाँचें / Apnee Pragati jaanchen / Check your progress- 19.3

1. सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए

sahee shabd chunkar rikt sathaan bhariye:

Fill in the blanks by choosing the correct word:

पत्थर, धनुषकोड़ी, चटनी, महासागर, रामेश्वरम, गलियारा

(क) नारियल की स्वादिष्ट

(ख) एक अनोखी जगह

(ग) विशाल हिन्द

(घ) दुनिया का सबसे लंबा

(ङ) पानी में तैरने वाले

(च) ज्योतिर्लिंग के दर्शन

2. नीचे दिए शब्दों के सही जोड़े बनाइए:

Neeche diye shabdon ke sahee jode banaaiye:

Pair the following words:

रामेश्वरम व्यंजन

धनुषकोड़ी वाहन

डोसा सांभर समुद्री किनारा

ठंड मंदिर

रेल मौसम

3. दिल्ली से रामेश्वरम तक किन-किन वाहनों से यात्रा की गई ? उन वाहनों के नाम लिखिए—

Dilli se Rameshwaram tak kin-kin Vaahnon se yaatraa kee gae? Un Vaahnon ke naam likhiye –

Which vehicles were used to travel from Delhi to Rameshwaram ? Write their names.

4. इडली, डोसा किस तरह के व्यंजन है ?

Idalee, Dosaa, kis tarah ke vyanjan hain?

What types of dishes are Dosa and Sambhar?

(क) उत्तर भारतीय

(ख) चाइनीज़

(ग) पंजाबी

(घ) दक्षिण भारतीय

नए शब्द सीखें / Naye shabd seekhein / Learn new words:

	हिन्दी –देवनागरी में	हिन्दी –रोमन लिपि में	अँग्रेजी अनुवाद
(क).	पर्यटन	<i>Paryatan</i>	Tourism
(ख).	सांस्कृतिक	<i>Saanskritik</i>	Cultural
(ग).	भौगोलिक	<i>Bhaugolik</i>	Geographical
(घ).	सौंदर्य	<i>Soundarya</i>	Beauty
(ङ).	उत्तर	<i>Uttar</i>	North
(च).	दक्षिण	<i>Dakshin</i>	South
(छ).	वाहन	<i>Vaahan</i>	Vehicle
(ज).	इंतजार	<i>Intazaar</i>	Wait
(झ).	दोपहर	<i>Dopahar</i>	Afternoon
(ञ).	यात्रा	<i>Yaatraa</i>	Journey

	हिन्दी –देवनागरी में	हिन्दी –रोमन लिपि में	अंग्रेजी अनुवाद
(ट).	ज्यादा	<i>Jyaadaa</i>	More
(ठ).	उत्साहित	<i>Utsaahit</i>	Excited
(ड).	योजना	<i>Yojana</i>	Plan
(ढ).	नारियल	<i>Naariyal</i>	Coconut
(ण).	समुंद्र	<i>Samudra</i>	Sea
(त).	दृश्य	<i>Drishya</i>	Sight



आपने क्या सीखा: / *Aapne kyaa seekhaa:* / What have you learnt:

हिन्दी –देवनागरी में Hindi in Devnagri	हिन्दी –रोमन लिपि में Hindi in Roman Script	अंग्रेजी अनुवाद English Translation
• रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।	<i>Rameshwaram jyotirling shiv ke 12 jyotirlingon men se ek hai.</i>	Rameshwaram jyotirlinga is one of the 12 jyotirlingas of Lord Shiva.
• रामेश्वरम दक्षिण भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल है।	<i>Rameshwaram dakshin Bharat kaa pramukh teerth sathal hai.</i>	Rameshwaram is a prominent pilgrimage site of South India.
• रामेश्वरम भारतीय प्राचीन कला और संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है।	<i>Rameshwaram bhaarteeya kalaa aur sanskriti kaa utkrisht udaaharan hai.</i>	Rameshwaram is an excellent example of Indian ancient art and culture.
• बीते अनुभवों को भूतकाल में व्यक्त किया जाता है।	<i>Beete anubhavon ko bhootkaal men vyakt kiyaa jaataa hai.</i>	Past experiences are expressed in past tense.



पाठांत प्रश्न / Paathant Prashn / Terminal Questions

1. शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए—

Shabdon ko sahee kram men lagaakar vaakyaa banaaiye-

Make sentence by putting the words given below in the correct sequence.

- (क) डोसा ने माया खाया ।
- (ख) थक बहुत हूँ गया मैं ।
- (ग) गीता है पढ़ती किताब ।
- (घ) रामेश्वरम सैम माया और गए घूमने ।

2. पाठ में आए क्रिया शब्दों की सूची बनाइए

Paath men aaye kriyaa shabdon kee soochee banaaiye.

Make a list of the verbs that appear in the lesson.

3. पाठ में आए विशेषणों की सूची बनाइए।

Paath men aaye visheshanon kee soochee banaiye.

Make a list of the adjectives appeared in the lesson.

4. निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए:

Nimnlikhit shabdon kaa vaakyon men prayog keejiye:

Make sentances using the words given below:

- | | |
|-------------|---------------|
| (क) यात्रा | (च) योजना |
| (ख) उत्साह | (छ) लंबा |
| (ग) खूबी | (ज) सुंदर |
| (घ) जानकारी | (झ) अनोखी |
| (ङ) विशेषता | (ञ) स्वादिष्ट |

आइए, करके देखें / Aaiye karke dekhien / Let's do :

1. भारत की ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानकारी एकत्र करें।
Bharat kee aitihaasik imaarton ke baare men jaankaaree ekatra karen.
 Collect information about the historical monuments of India.
2. भारत में स्थित प्रमुख तीर्थस्थलों की सूची बनाइए और उनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए।
Bharat men sthit pramukh teerthsthlon kee soochee banaaiye aur unke baare men jaankaaree ekatr kijiye.
 Prepare a list of major pilgrimage sites situated in India and collect information about them.
3. दक्षिण भारतीय व्यंजनों की सूची बनाइए। प्रत्येक व्यंजन के चित्र भी एकत्रित करें।
Dakshin bhaarteeya vayanjanon kee soochee banaaiye. Pratyek vyanjan ke chitra bhee ekatrit karen.
 Make a list of South Indian Cuisine. Collect their pictures too.



उत्तरमाला

‘अपनी प्रगति जाँचें’ में दिए प्रश्नों के उत्तर / 'Apnee pragati jaanchien' men diye prashanon ke uttar / Answers of the question given under 'Check your progress'.

19.1

1. (क) रात, (ख) सुबह ,
 (ग) शाम, (घ) दोपहर
2. (ख) पंवन पुल

19.2

1. (क) सही (ख) गलत (ग) गलत (घ) सही
 (ङ) सही (च) सही (छ) सही

19-3

1. (क) चटनी (ख) धनुषकोड़ी
 (ग) महासागर (घ) गलियारा
 (च) पत्थर (छ) रामेश्वरम
2. रामेश्वरम – मंदिर
 धनुषकोड़ी – समुन्द्री किनारा
 डोसा सांभर – व्यंजन
 ठंड – मौसम
 रेल – वाहन
3. टैक्सी, हवाईजहाज, रेल
4. (घ) दक्षिण भारतीय